



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1944 (श10)
(सं0 पटना 978) पटना, बुधवार, 16 नवम्बर 2022

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
15 नवम्बर 2022

सं० 8 / विविध-10-28 / 2022, गृ०आ० 11499—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के तहत मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत राज्य सरकार, बिहार विधान सभा के उप निर्वाचन, 2022 के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों/आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों/ आरक्षियों को नामित करती है।

2. नामित पुलिस पदाधिकारी, बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी/आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 978-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>